



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 23-2025/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JANUARY 31, 2025 (MAGHA 11, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 जनवरी, 2025

संख्या 2/18/2024-5जे.जे.(1).- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 265 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक, धारा 266 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक तथा धारा 308 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या 2/18/2024-5जेजे(1) दिनांक 07 दिसम्बर, 2024 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा साक्षियों की परीक्षा के प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित स्थानों को अभिहित स्थानों के रूप में अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:-

1. राज्य के सभी जिला न्यायालयों में सभी न्यायालय कक्ष/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।
2. मध्यस्थता केंद्रों सहित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।
3. हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ और नए हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।
4. राज्य सरकार के सभी विभागों/बोर्डों/निगमों/आयोगों/प्राधिकरणों/ब्यूरो के सभी राज्य मुख्यालयों/राज्य स्तरीय कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष सुविधा।
5. हरियाणा भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली और हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।
6. मंडल आयुक्तों, उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेटों, उप-मंडल मजिस्ट्रेटों, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों, तहसील और उप-तहसील कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।
7. पुलिस मुख्यालय/पुलिस की अन्य विंगों जैसे सतर्कता, राज्य अपराध, नारकोटिक्स इत्यादि, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस आयुक्तों/पुलिस अधीक्षकों/पुलिस उपाधीक्षकों और सभी पुलिस थानों के कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।
8. हरियाणा राज्य की सभी जेलों में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।
9. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक, सरकारी अस्पतालों, सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।
10. न्यायालिक प्रयोगशाला, मधुबन, करनाल, राज्य में इसके क्षेत्रीय केंद्रों और राज्य में सरकारी साइबर प्रयोगशालाओं में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।

11. सभी सरकारी महिला उद्धार गृहों, संरक्षण गृहों, नारी निकेतन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।
12. किशोर न्याय बोर्ड और जिला बाल कल्याण समितियों के कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।
13. सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों, महिला तथा बाल विकास विभाग, हरियाणा के कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।
14. राष्ट्रीयकृत बैंकों की जिला स्तर पर मुख्य सबसे बड़ी शाखा और राज्य सरकार के स्वामित्वधीन सभी बैंकों की मुख्य सबसे बड़ी शाखा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा।

टिप्पणः—

1. उपरोक्त उल्लिखित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा में से प्रत्येक की तत्काल स्थापना, निरंतर रखरखाव और सुचारु संचालन संबंधित विभाग के जिला प्रमुख का कर्तव्य होगा, जो जिले के उपायुक्त के निकट पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होगा।
2. क्रम संख्या 8, 11 और 12 पर उल्लिखित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा का उपयोग ऐसे गवाहों के लिए अभिहित स्थान के रूप में किया जाएगा, जो केवल उनके संबंधित कर्मचारी, निवासी या कैदी हैं। क्रम संख्या 13 पर उल्लिखित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा केवल महिलाओं और बच्चों के लिए होगी।
3. क्रम संख्या 7, 10 और 14 पर उल्लिखित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा उनके संबंधित कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से उपयोग के लिए होगी। क्रम संख्या 9 पर उल्लिखित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष/सुविधा के मामले में, उनके संबंधित कर्मचारियों और रोगियों/परिचारकों के अलावा, इसमें सभी डॉक्टर/पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सा/कर्मचारी शामिल होंगे।

डॉ. सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, सरकार, हरियाणा,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT
Notification

The 31st January, 2025

No. 2/18/2024-5JJ(1).— In exercise of the powers conferred under the second proviso to sub-section (3) of section 265, second proviso to sub-section (2) of section 266 and section 308 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023) and in supersession of Haryana Government, Administration of Justice Department, notification no. 2/18/2024-5JJ(1) dated the 7th December, 2024, the Governor of Haryana hereby notifies the following places as designated place for the purpose of examination of witnesses by audio video electronic means, namely:-

1. All the Court rooms/ video conferencing room/ facility in all District Courts of the State.
2. Video conferencing room/ facility in the office of the State Legal Services Authority and District Legal Services Authorities including Mediation centres.
3. Video conferencing room/ facility in the Haryana Civil Secretariat, Chandigarh and New Haryana Civil Secretariat, Sector-17, Chandigarh.
4. Video conferencing room/ facility at all the State Head Quarters/ State Level offices of all the Departments/Boards/Corporations/ Commissions/ Authorities/ Bureaus of the State Government.
5. Video conferencing room/facility in Haryana Bhawan, Copernicus Marg, New Delhi and Haryana Niwas at Chandigarh.

6. Video conferencing room/facility in the offices of Divisional Commissioners, Deputy Commissioner/District Magistrates, Sub-Divisional Magistrates, Block Development and Panchayat offices, Tehsil and Sub-Tehsil offices.
7. Video conferencing room/ facility in the offices of Police Headquarter, State Headquarters of other wings of police like Vigilance, State Crime, Narcotics etc., Inspector General of Police, Commissioners of Police, Superintendents of Police, Deputy Superintendents of Police and all Police Stations.
8. Video conferencing room/facility established in all the Jails in the State of Haryana.
9. Video conferencing room/facility in PGIMS Rohtak, Government Hospitals, Government/ Government Aided Medical Colleges, Community Health Centres.
10. Video conferencing room/facility established at Forensic Sciences Laboratory, Madhuban, Karnal, its Regional Centres in the State and the Government Cyber Labs in the State.
11. Video conferencing room/facility in all Government run Women Rescue Homes, Protection Homes, Nari Niketan.
12. Video conferencing room/facility in the offices of Juvenile Justice Board and District Child Welfare Committees.
13. Video conferencing room/facility in the offices of all District Programme Officers, Women and Child Development Department, Haryana.
14. Video conferencing room/facility in the main/ largest branch at District Level of Nationalised Banks and in the main/ largest branch of all Banks owned by the State Government.

Note. -

1. **Immediate establishment, continuous maintenance and smooth functioning of each of the above cited video conferencing rooms/ facility shall be the duty of the Head of the district of the concerned Department under close supervision and control of the Deputy Commissioner of the district.**
2. **The video conferencing room/facility mentioned above at serial numbers 8, 11 and 12 shall be used as designated place for such witnesses who are their respective staff, residents or inmates only. The video conferencing room/facility mentioned at serial number 13 shall be exclusively for women and children.**
3. **The video conferencing room/facility mentioned above at serial numbers 7, 10 and 14 shall be for exclusive use by their respective staff; in case of the video conferencing room/facility mentioned at serial number 9, besides their respective staff and patients/attendants, it shall include all doctors/registered medical practitioners/medical staff.**

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.